

**प्रेस नोट**  
**दिनांक 04.03.2021**  
**सराहनीय कार्य जनपद अमेठी**

**पुलिस मुठभेड़ में 25 हजार का ईनामिया अभियुक्त 01 तमंचा व कारतूस 315 बोर के साथ थाना अमेठी पुलिस द्वारा गिरफ्तार ।**

जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 04.03.2021 को प्र0नि0 श्याम सुन्दर थाना अमेठी मय हमराह द्वारा तलाश वांछित अपराधी, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, वाहन अन्तू रोड़ से दुर्गापुर बाईपास पर मौजूद थे कि दुर्गापुर रोड़ की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर सवार 02 व्यक्ति पुलिस की गाड़ी देखकर पीछे मुड़कर भागना चाहे कि अचानक गाड़ी नीचे गिर गई । पीछे बैठा व्यक्ति छिपकर बैठ गया तथा मोटरसाइकिल चालक अपनी गाड़ी उठाकर भाग गया । पुलिस टीम अपनी गाड़ी रोककर आसपास देखने लगे कि छिपे हुए व्यक्ति ने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया । आत्मसमर्पण हेतु ललकारने पर तमंचा लहराते हुए पुनः फायर कर दिया । प्रभारी निरीक्षक अमेठी द्वारा आत्मरक्षार्थ अपनी 09 एमएम पिस्टल से 02 राउण्ड फायर किया गया तो एक गोली उस व्यक्ति के दाहिने के पैर में लगी । पुलिस टीम द्वारा घेरकर समय करीब 01:35 बजे रात्रि में गिरफ्तार किया गया । पूछने पर उसने अपना नाम आशीष मिश्रा पुत्र कामता प्रसाद मिश्र निवासी ग्राम मडौली थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी बताया । पकड़े गये व्यक्ति के दाहिने पैर में गोली लगी है जिसे अपनी गाड़ी से प्राथमिक उपचार दिया गया । टार्च की रोशनी से निरीक्षण करने पर एक तमंचा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ तथा दूसरा खोखा तमंचे के चैम्बर में फंसा हुआ मिला । भागे हुए व्यक्ति के बारे में पूछने पर उसका नाम संजीव पाल उर्फ संदीप पुत्र जंजाली पाल निवासी अमयेमाफी थाना पीपरपुर जनपद अमेठी बताया । गिरफ्तार व्यक्ति मु0अ0सं0 86/21 धारा 302,120बी,34 भादवि में 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अपराधी है । थाना अमेठी द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

**घटना का संछिप्त विवरण:-**

वादी श्री श्रीकान्त श्रीवास्तव पुत्र हरि शंकर निवासी ग्राम कोठी पालपुर थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी द्वारा थाना अमेठी पर लिखित तहरीर दी गई कि आज दिनांक 01.03.2021 को अपनी ससुराल ग्राम करौंदी थाना संग्रामपुर स्कार्पियो गाड़ी से जा रहे थे कि शाम लगभग 05 बजे तिवारीपुर गांव के पास मेरा साला सुधीर (मृतक) मिल गया जो मेरी गाड़ी के आगे-आगे 50 मीटर पर चल रहा था । इतने में एक बाइक पर सवार आशीष मिश्रा पुत्र कामता मिश्रा नि0 मडौली थाना संग्रामपुर व एक अन्य अज्ञात द्वारा मेरे साले की बाइक को धक्का मार कर गिरा दिया व हाकियों से मारना पीटना शुरु कर दिया । हमलोग बचाने के लिये दौड़े तो दोनों से अपने हाथों से कट्टा निकालकर आशीष ने गले व सिर पर गोली मार कर फरार हो गये । घायल सुधीर को सीएचसी अमेठी ले गये जहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया । जिस सम्बन्ध में थाना अमेठी पर मु0अ0सं0 86/21 धारा 302,120बी,34 भादवि पंजीकृत विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

**पूछताछ का विवरण:-**

पूछताछ में अभियुक्त आशीष मिश्रा ने बताया कि दिनांक 01.03.2021 को हथकिला के पास सुधीर श्रीवास्तव को मैंने व मेरे दोस्त संजीव पाल दोनों लोगों ने मिलकर मारा था । सुधीर श्रीवास्तव 5 वर्ष पूर्व मेरी बहन को भगाकर शादी कर लिया था तभी से मैं व मेरे पिता ने सलाह किया था कि किसी न किसी दिन उसकी हत्या कर देंगे । दिनांक 01.03.2021 को मौका मिला तो हम लोगों ने सुधीर श्रीवास्तव को गोली मार दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई । हमलोगों ने अपना बदला ले लिया ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -**

- आशीष मिश्रा पुत्र कामता प्रसाद मिश्र निवासी ग्राम मडौली थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।

**फरार अभियुक्त:-**

- संजीव पाल उर्फ संदीप पुत्र जंजाली पाल निवासी अमयेमाफी थाना पीपरपुर जनपद अमेठी ।

**पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही:-**

1. मु0अ0सं0 86/21 धारा 302,120बी,34 भादवि थाना व जनपद अमेठी ।
2. मु0अ0सं0 88/21 धारा 307 भादवि थाना व जनपद अमेठी ।
3. मु0अ0सं0 89/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना व जनपद अमेठी ।

**गिरफ्तार करने वाली टीम-**

1. प्र0नि0 श्याम सुन्दर थाना अमेठी जनपद अमेठी ।
2. उ0नि0 अभिनेष कुमार थाना अमेठी जनपद अमेठी ।
3. का0 चंदन कनौजिया थाना अमेठी जनपद अमेठी ।
4. का0 दीपक कुमार थाना अमेठी जनपद अमेठी ।
5. का0 नरेन्द्र कुमार थाना अमेठी जनपद अमेठी ।

**आपराधिक इतिहास:- आशीष मिश्रा**

1. मु0अ0सं0 53/13 धारा 323,504,506 भादवि थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।
2. मु0अ0सं0 40/18 धारा 323,506,427 भादवि थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।
3. मु0अ0सं0 201/20 धारा 323,342,504,506 भादवि व 3(2)5क, 3(1)द,ध एससी एसटी एक्ट थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।
4. मु0अ0सं0 331/20 धारा 323,504,506 भादवि थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।
5. मु0अ0सं0 निल/20 धारा 110 जी थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।